

(GCF-1, 3, 4, 5, 6, 7+7A, 8+8A, 9, VCF-1,2, ACF-1,2, JCF-1)

DATE: 17.10.2023

MAXIMUM MARKS: 100

TIMING: 2 Hours

ECO & BCK

1. Ans. b

Explanation:

IC हमेशा उत्तल होता है कभी अवतल नहीं होता।

2. Ans. a

Explanation:

दो चर के बीच संबंध फलन है।

3. Ans. a

Explanation:

MC curve cuts AC और AVC को उनके न्यूनतम बिन्दु पर काटता है।

4. Ans. d

Explanation:

जब AC न्यूनतम होता है, तो MC AC के बराबर होता है, जिसे "Optimum point of production" के रूप में जाना जाता है।

5. Ans. b

Explanation:

चूंकि, पूर्णतः बेलोचदार मॉग में मॉग की गई मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए विकल्प की उपलब्धता मांग ($e=0$) की मांग की मात्रा को प्रभावित नहीं करती है क्योंकि कीमत में किसी भी बदलाव के साथ, मांग की गई मात्रा में बदलाव नहीं होता है।

6. Ans. a

Explanation:

चूंकि TFC का आकार क्षैतिज होता है।

7. Ans. d

Explanation:

एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार के तहत, उपभोक्ता के लिए उत्पाद की इतनी विविधताएं उपलब्ध हैं, क्योंकि उत्पाद भेदभाव का अस्तित्व है।

8. Ans. b

Explanation:

आंशिक अल्पाधिकार के तहत उदयोग में एक बड़ी फर्म का वर्चस्व होता है, जिसे समूह के नेता के रूप में माना जाता है या देखा जाता है। हावी होने वाली फर्म प्राइस लीडर होगी।

9. Ans. c

Explanation:

सीमांत लागत वक के बढ़ते हिस्से को आपूर्ति वक के रूप में जाना जाता है क्योंकि उत्पादन के स्तर में वृद्धि के साथ सीमांत लागत बढ़ जाती है।

10. Ans. b

Explanation:

LAC वक योजना वक है।

11. Ans. d

Explanation:

DMU के निम्न के अनुसार, MU बढ़ी हुई खपत के साथ खारिज कर देता है और धीरे-धीरे शून्य-शून्य हो सकता है।

12. Ans. a

Explanation:

उसी अनुपात में बदलें ताकि कीमत में कोई बदलाव न हो।

13. Ans. a

Explanation:

P.C. के तहत लंबे समय में एक फर्म सामान्य लाभ कमाती है।

14. Ans. c

Explanation:

कम/कोई विकल्प नहीं होने के कारण।

15. Ans. a

Explanation:

प्रचलित मूल्य से ऊपर के क्षेत्र में $E > I$ है।

प्रचलित मूल्य से नीचे के क्षेत्र में $E < I$ है।

जो प्रचलित कीमत पर एक मोड़ पैदा करता है।

16. Ans. b

Explanation:

समय की अवधि में आर्थिक गतिविधि के उतार-चढ़ाव के स्तर को व्यापार चक्र कहा जाता है।

17. Ans. d

Explanation:

व्यापार चक्र में निम्नतम बिन्दु को मंदी कहा जाता है।

18. Ans. a

Explanation:

मंदी के दौरान, बेरोजगारी दर बढ़ जाती है और उत्पादन गिर जाता है।

19. Ans. a

Explanation:

एक व्यापार चक्र के विभिन्न चरणों की लंबाई और गंभीरता समान नहीं होती है।

20. Ans. c

Explanation:

रोटी व मास का संबंध देखकर आश्चर्य चकित है।

21. Ans. b

Explanation:

उपयोगिता परिकल्पना उपभोक्ता के व्यवहार के सिद्धांत का आधार बनती है, क्योंकि अच्छे की उपयोगिता यह निर्धारित करती है कि उपभोक्ता वस्तु को खरीदेगा या नहीं।

22. Ans. a

Explanation:

किसी वस्तु की सीमांत उपयोगिता उसकी मात्रा पर निर्भर करती है और उसकी मात्रा के व्युत्क्रमानुपाती होती है।

23. Ans. a

Explanation:

बाजार की अवधि का मतलब बहुत कम समय का बाजार है।

24. Ans. c

Explanation:

व्यवहार सिद्धांतों के अनुसार एक फर्म को उत्पादन बिल्कुल नहीं करना चाहिए इसकी कुल परिवर्तनीय लागतें पूरी नहीं होती हैं, एक फर्म उत्पादन को उस स्तर तक विस्तारित करके अधिकतम लाभ कमाएगी जहां सीमांत आगम सीमांत लागत के बराबर है।

25. Ans. b

Explanation:

मोनोप्सनी का मतलब है कि एक ही खरीदार है।

26. Ans. c

Explanation:

पुनर्निर्माण व्यापार चक्र का चरण नहीं है।

27. Ans. a

Explanation:

प्रभावी मांग में उतार-चढ़ाव व्यापार चक्र के आंतरिक कारण हैं।

28. Ans. c

Explanation:

अतिरिक्त मुद्रा आपूर्ति 1930 के महामंदी से संबंधित नहीं है।

29. Ans. a

Explanation:

अग्रणी संकेतक मापने योग्य आर्थिक कारक हैं जो वास्तविक उत्पादन परिवर्तन से पहले बदलते हैं।

30. Ans. c

Explanation:

उत्पादन के कारक बाजार अर्थव्यवस्थाओं में निजी तौर पर स्वामित्व में हैं।

31. Ans. d

Explanation:

पूर्ण प्रतियोगिता को 'बाजार में मिथक' के रूप में जाना जाता है।

32. Ans. d

Explanation:

उपरोक्त सभी विकल्प मांग की कीमत लोच के लिए सही हैं।

33. Ans. b

Explanation:

किसी वस्तु के विकल्प की संख्या जितनी अधिक होगी, मांग उतनी ही अधिक लोचदार होगी।

34. Ans. b

Explanation:

अति सामान्य लाभ के लिए पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में AR, AC से अधिक होता है और पूर्ण प्रतियोगिता में $P = MR = AR$ और $MR = MC$ होता है, इसलिए इस प्रश्न में AR के लिए MC का उपयोग किया जाता है।

35. Ans. b

Explanation:

एकाधिकार में अत्यधिक उत्पाद विभेदन पाया जाता है।

36. Ans. a

Explanation:

एकाधिकारी फर्म को अधोमुखी मांग वक्र का सामना करना पड़ता है।

37. Ans. d

Explanation:

अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तनों के कारण बेरोजगारी का प्रकार संरचनात्मक है।

38. Ans. a

Explanation:

घर्षण बेरोजगारी विस्तार की विशेषता है।

39. Ans. c

Explanation:

Certris peribus का अर्थ है अन्य बातों का स्थिर होना।

40. Ans. d

Explanation:

नमक की मांग बेलोचदार है, कीमत कम होने के कारण तथा इसका अभाव भोजन को बेस्वाद बना देता है, कोई विकल्प नहीं।

41. Ans. b

Explanation:

उत्पाद की कीमत बिजली की मांग अधिक लोचदार होगी यदि उसके पास विकल्प की संख्या है।

42. Ans. b

Explanation:

$$\frac{q_1 - q_2}{q_1 + q_2} \times \frac{p_1 + p_2}{p_1 - p_2}$$

$$\frac{300 - 200}{300 + 200} \times \frac{12 + 20}{12 - 20}$$

$$\frac{100}{50} \times \frac{32}{8}$$

$$\frac{32}{40}$$

$$= 0.8$$

43. Ans. c

Explanation:

मुङ्गाव के बिंदु पर, कुल उत्पत्ति का ढाल शून्य होता है।

44. Ans. d

Explanation:

स्थिर अविभाज्य कारकों के पूर्ण उपयोग, परिवर्तनीय कारकों की दक्षता या सही संयोजन तक पहुंचने की आवश्यकता के कारण बढ़ते प्रतिफल का नियम संचालित होता है।

45. Ans. b

Explanation:

फर्म स्तर पर परिवर्तन के कारण आंतरिक बचतें और हानियां उत्पन्न होती हैं।

46. Ans. a

Explanation:

औसत उत्पाद अपने अधिकतम पर होता है जब सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद के बराबर होता है।

47. Ans. a

Explanation:

एक फर्म को शट डाउन की स्थिति का सामना करना पड़ता है जब कीमत औसत परिवर्तनीय लागत से कम होती है।

48. Ans. b

Explanation:

अर्थशास्त्र एक स्टीक विज्ञान नहीं है। क्योंकि यह विज्ञान और कला दोनों हैं।

49. Ans. b

Explanation:

आर्थिक नियम विशिष्ट मान्यताओं पर आधारित होते हैं। जैसे कि अन्य बातें समान रहने पर।

50. Ans. b

Explanation:

वास्तविक अर्थशास्त्र वास्तविक तथ्यों पर आधारित होता है, जबकि आदर्श मूलक अर्थशास्त्र मूल्य निर्णयन से गुजरता है।

51. Ans. c

Explanation:

कुल आगम - लेखांकन लागतें = लेखांकन लाभ

$$4,00,000 - 40,000 = 3,60,000$$

52. Ans. c

Explanation:

कुल आगम - आर्थिक लागतें = आर्थिक लाभ

$$4,00,000 - 1,65,000 = 2,35,000$$

53. Ans. c

Explanation:

आदर्श मूलक कथन मूल्य निर्णयन से संबंधित होते हैं। अतः C विकल्प सही है।

54. Ans. d

Explanation:

सूक्ष्म अर्थशास्त्र में हम अर्थव्यवस्था का सूक्ष्म अध्ययन करते हैं तथा सूक्ष्म अर्थशास्त्र उद्योगों और फर्मों के बीच कुल उत्पादन के विभाजन और प्रतिस्पर्धा उपयोगों के बीच संसाधनों के आवंटन से संबंधित है।

55. Ans. c

Explanation:

पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सभी आर्थिक निर्णय बाजार की शक्तियों द्वारा लिये जाते हैं।

56. Ans. b

Explanation:

संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन और अन्य पश्चिमी यूरोपीय देशों का औद्योगीकरण और आर्थिक विकास पूंजीवाद और निर्बाध की स्थिति के तहत हुआ है।

57. Ans. c

Explanation:

नियोजित उत्पादन तथा व्यापार चक्रों का ना होना समाजवाद की विशेषता है।

58. Ans. d

Explanation:

मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवाद और समाजवाद दोनों के गुण होते हैं।

59. Ans. c

Explanation:

यदि पूर्ति मात्रा में कमी होती है तो पूर्ति वक नीचे की ओर गतिशील होता है।

60. Ans. d

Explanation:

तकनीकी में विकास होने से पूर्तिवक दाये और गतिशील होता है।

61. Ans. A

Explanation:

बोली Ask/offer का विलोम शब्द है।

62. Ans. d

Explanation:

भारत में आईटीसी द्वारा शिक्षा और स्टेशनरी उत्पादों को सहपाठी के रूप में जाना जाता है।

63. Ans. a

Explanation:

आयात से संबंधित व्यापार प्रतिबंधों का सरलीकरण वैश्वीकरण का एक उदाहरण है।

64. Ans. b

Explanation:

FPI उत्पादन और रोजगार पैदा नहीं करता क्योंकि FPI शेयर बाजार में निवेश है।

65. Ans. c

Explanation:

आशीष अदुकिया सिपला के CFO है।

66. Ans. c

Explanation:

RBI पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा नहीं करता है।

67. Ans. a

Explanation:

SHGs कार्यक्रम ABARD से संबंधित है।

68. Ans. d

Explanation:

SEBI के सदस्यों में पांच अन्य सदस्य होते हैं जिनमें से कम से कम 3 सदस्य पूर्णकालिक सदस्य होंगे।

69. Ans. a

Explanation:

प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली प्रथाओं को बढ़ावा देना CCI की भूमिका नहीं है।

70. Ans. c

Explanation:

व्यवसाय और उत्पादों के संग्रह जो व्यवसाय को बनाते हैं, व्यवसाय पोर्टफोलियो कहलाते हैं।

71. Ans. c

Explanation:

स्वामित्व शब्द व्यवसाय चलाने के उद्देश्य से सम्पत्ति के लिए कानूनी शीर्षक प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति या व्यक्ति के समूह के अधिकार को संदर्भित करता है।

72. Ans. b

Explanation:

ब्याज की दरें जिन्हें ऋणदाता द्वारा संविदात्मक रूप से बदला जा सकता है, प्रशासित दरें कहलाती हैं।

73. Ans. c

Explanation:

वित्तीय मापदंडों में परिवर्तन के माप को आधार बिन्दु कहा जाता है।

74. Ans. a

Explanation:

कभी—कभी बैंक द्वारा आवश्यक माध्यमिक सुरक्षा को संपार्शिक सुरक्षा कहा जाता है।

75. Ans. b

Explanation:

किसी तीसरे पक्ष को भुगतान करने की अपनी प्रतिबद्धता बताते हुए बैंक द्वारा जारी एक दस्तावेज साख पत्र है।

76. Ans. a

Explanation:

एलएलपी अधिनियम 2008 31 मार्च 2009 को प्रभावी हुआ।

77. Ans. d

Explanation:

100 आधार अंक = 1% ब्याज दर।

78. Ans. b

Explanation:

बीमा क्षेत्र में FDI की सीमा 49% है।

79. Ans. d

Explanation:

HUF व्यवसायों में, व्यवसाय में परिवार की भागीदारी होती है और भारत में इस रूप में मान्यता प्राप्त है।

80. Ans. b

Explanation:

पार्टनरशिप फर्म में अधिकतम पार्टनर की संख्या 50 होती है।

81. Ans. d

Explanation:

व्यवसायिक पर्यावरण गत्यात्मक है तथा एक मुश्किल अवधारणा है इसके कई पहलू हैं।

82. Ans. b

Explanation:

पूर्वानुमान एक तरीका है जिसे बाजार में भावी मौग का अनुमान लगाया जा सकता है।

83. Ans. b

Explanation:

प्रवृत्तियों का अर्थ है समान या सम्बन्धित घटनाएँ।

84. Ans. b

Explanation:

आयकर अधिनियम के तहत, A HUF वेतन से आय अर्जित नहीं कर सकता है।

85. Ans. b

Explanation:

PESTLE सम्बन्धित वातावरण की व्याख्या करता है।

86. Ans. b

Explanation:

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश उदारीकरण का एक प्रभाव है।

87. Ans. c

Explanation:

पर्यावरण अवसर, प्रोत्साहन, पुरस्कार तथा बाधाएँ, खतरे व प्रतिबन्ध उत्पन्न करता है।

88. Ans. d

Explanation:

संगठन के पर्यावरण के खतरों और अवसरों का विश्लेषण करने की प्रक्रिया को पर्यावरणीय स्कैनिंग के द्वारा वर्गीकृत किया गया है।

89. Ans. a

Explanation:

Overseas Corporate Bodies OCBs का अर्थ है।

90. Ans. b

Explanation:

ADR का अर्थ है American Depository Receipt.

91. Ans. a

Explanation:

SEBI की स्थापना 1988 में हुई थी।

92. Ans. d

Explanation:

मुस्लिम परिवार में हिन्दू अविभाजित परिवार व्यवसाय नहीं पाया जाता।

93. Ans. d

Explanation:

सभी व्यष्टि के घटक हैं, सिवाय तकनीकी के।

94. Ans. d

Explanation:

उपरोक्त सभी Bear की स्थिति हैं।

95. Ans. a

Explanation:

Arthur D. Levinson Apple के Chairman हैं।

96. Ans. c

Explanation:

Atanu Chakraborty HDFC Bank के Chairman हैं।

97. Ans. d

Explanation:

Nilanjan Roy Infosys के CFO हैं।

98. Ans. a

Explanation:

Thierry Delaporte Wipro Limited के CFO हैं।

99. Ans. b

Explanation:

Arvind Krishna IBM Corporation के Chairman हैं।

100. Ans. d

Explanation:

उपरोक्त सभी कथन सही हैं।

— ** —